



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1070 राँची, शुक्रवार,

30 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप- 1-487/2014-2817 (HRMS)-- श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 663/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, छपरा (बिहार) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-18933, दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-112, दिनांक 14 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध श्री महावीर राय, चौकीदार को सेवानिवृत्ति के बाद भी वेतन का भुगतान कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-2979, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-58, दिनांक 26 जून, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-7406, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3130, दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य

उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7763, दिनांक 05 जुलाई, 2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-367, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसकी समीक्षा की गयी। समीक्षा में पया गया कि श्री महावीर राय, चौकीदार की सेवानिवृत्त के उपरांत भी श्री कुमार द्वारा वेतन का भुगतान किया गया, जिसके लिए श्री कुमार जिम्मेवार हैं।

अतः समीक्षोपरांत श्री पवन कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 (iii) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PAWAN KR. BHR/BAS/3117	श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, छपरा (बिहार) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 (iii) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
